



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 13, 2016/ श्रावण 22, 1938

No. 270]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13, 2016/SRAVANA 22, 1938

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2016

परिधानों के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट की दरें

सं. 12020/03/2016-आईटी.—वस्त्र और अपैरल क्षेत्र के रोजगार गहन क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सुधार के उपाय करने के लिए भारत सरकार के निर्णय तथा परिधानों पर नई राज्य लेवी छूट योजना के अनुमोदन के अनुपालन में वस्त्र मंत्रालय ने छूट की व्यवस्था के माध्यम से परिधानों के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट प्रदान करने की योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना को परिधानों के निर्यात पर राज्य लेवी छूट योजना, 2016 कहा जाएगा (जिसे इसके पश्चात आरओएसएल योजना कहा गया है)।

2. आरओएसएल योजना की दरों को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 और 2 के रूप में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचना 20 सितम्बर, 2016 से प्रभावी होगी। अनुसूची 1 सामान्य छूट से संबंधित है और अनुसूची 2 विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत केवल फैब्रिक (इंटरलाइनिंग सहित) का शुल्क मुक्त आयात किए जाने पर निर्यातों के लिए लागू छूट की दरों से संबंधित है। छूट की दरें किसी कर के संघटक अथवा इनपुट में विभाज्य नहीं है और केवल ड्रॉबैक के ऑल इंडस्ट्री रेट के अनुरूप गणना किए गए औसत आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

3. छूट की राशि की गणना एफओबी मूल्य का प्रयोग करके की जाएगी। अधिसूचित की जा रही दरों की अनुसूची 1 के कॉलम (4) और (5) में दर्शाई गई एक टैरिफ आइटम के लिए सीमा सहित छूट की सामान्य दर गणना के लिए लागू होगी जब उस आइटम में एआईआर के अनंतिम सीमा शुल्क हिस्से के लिए दावे सहित ब्रांड रेट ड्रॉबैक के लिए दावे के अंतर्गत एआईआर ड्रॉबैक अथवा निर्यात का दावा किया गया हो। अधिसूचित की जा रही दरों की अनुसूची 2 के कॉलम (4) और (5) में दर्शाई गई

एक टैरिफ आइटम के लिए सीमा सहित छूट की दर गणना के लिए लागू होगी जब आइटम में विशेष अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत निर्यात किए गए हों, जिसमें केवल शुल्क मुक्त फैब्रिक (इंटर लाइनिंग सहित) का आयात किया गया हो।

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

### अनुसूची-I

#### राज्य लेवी छूट दर अनुसूची

टैरिफ मद	वर्तमान एआईआर ड्राबैक अनुसूची के अंतर्गत सामानों का विवरण	यूनिट	ई	
			छूट दर (%)	रू. में प्रति यूनिट छूट सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

#### अध्याय-61

#### परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत

6101	पुरुषों और लड़कों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (जिसके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6103 के अंतर्गत आती हैं			
610101	सूत के	नग	3.5	46.8
610102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
610103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
610104	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
610105	ऊन के	नग	3.9	103.2
610106	ऊन एवं मानव निर्मित रेशों वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
610199	अन्य के	नग	3.1	41.3
6102	स्त्रियों और लड़कियों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (जिसके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6104 के अंतर्गत आती हैं			
610201	सूत के	नग	3.5	46.8
610202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
610203	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
610204	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
610205	ऊन के	नग	3.9	103.2
610206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
610299	अन्यों के	नग	3.1	41.3
6103	पुरुषों और लड़कों के सूट, जोड़ा, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और मिकर			

	(तरण परिधान से भिन्न) , बुने या क्रोशियाकृत			
<b>610301</b>	<b>सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)</b>			
61030101	सूट के	नग	3.5	80.0
61030102	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	63.6
61030103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	64.8
61030104	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	145.6
61030105	ऊन के	नग	3.9	153.7
61030106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	109.4
61030199	अन्यों का	नग	3.1	70.3
<b>610302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
61030201	सूट के	नग	3.5	46.8
61030202	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
61030203	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
61030204	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
61030205	ऊन के	नग	3.9	103.2
61030206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
61030207	सूट के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.5	49.4
61030299	अन्यों के	नग	3.1	41.3
<b>610303</b>	<b>ट्राउजर/ फुल पैट्स</b>			
61030301	सूट के	नग	3.9	37.0
61030302	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.9	25.9
61030303	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.9	26.6
61030304	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	57.2
61030305	ऊन के	नग	3.9	50.5
61030306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	40.1
61030307	सूट के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	39.0
61030399	अन्यों के	नग	2.9	27.1
<b>610304</b>	<b>अन्य (कैफरी /श्रीफोर्थ पैट और इन्सेम्बल सहित)</b>			
61030401	सूट के	नग	3.3	19.7
61030402	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
61030403	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	15.7
61030404	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
61030405	ऊन के	नग	3.9	27.5
61030406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
61030407	सूट के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	20.6
61030499	अन्यों के	नग	2.65	15.5

<b>6104</b>	स्त्रियों और लड़कियों के सूट, जोड़ा, जैकेट, ब्लेजर, पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और नकर (तरण परिधान से भिन्न), बुने या क्रोशियाकृत			
<b>610401</b>	सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)			
61040101	सूट के	नग	3.5	80.0
61040102	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	63.6
61040103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	64.8
61040104	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	145.6
61040105	ऊन के	नग	3.9	153.7
61040106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	109.4
61040199	अन्यों का	नग	3.1	70.3
<b>610402</b>	जैकेट, ब्लेजर			
61040201	सूट के	नग	3.5	46.8
61040202	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
61040203	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
61040204	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
61040205	ऊन के	नग	3.9	103.2
61040206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
61040207	सूट के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.5	49.4
61040299	अन्यों के	नग	3.1	41.3
<b>610403</b>	पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, फुल पैट्स			
61040301	सूट के	नग	3.9	37.0
61040302	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.9	25.9
61040303	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.9	26.6
61040304	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	57.2
61040305	ऊन के	नग	3.9	50.5
61040306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	40.1
61040307	सूट के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	39.0
61040399	अन्यों के	नग	2.9	27.1
<b>610404</b>	अन्य (कैपरी /श्री फोर्थ पैट और इन्सेम्बल्ड सहित)			
61040401	सूट के	नग	3.3	19.7
61040402	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
61040403	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	15.7
61040404	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
61040405	ऊन के	नग	3.9	27.5
61040406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9

61040407	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	20.6
61040499	अन्यों के	नग	2.65	15.5
<b>6105</b>	<b>पुरुषों और लड़कों की कमीजें, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
610501	सूत के	नग	3.9	30.8
610502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
610503	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
610504	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
610505	ऊन के	नग	3.9	27.5
610506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
610507	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	29.3
610599	अन्यों के	नग	2.65	20.1
<b>6106</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों की ब्लाउज, कमीजें और कमीज-ब्लाउज,, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
610601	सूत के	नग	3.2	25.3
610602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
610603	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
610604	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
610605	ऊन के	नग	3.9	27.5
610606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
610607	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.2	24.0
610699	अन्यों के	नग	2.65	20.1
<b>6107</b>	<b>पुरुषों और लड़कों के अंडरपैट, जांघिया, नाइटशर्ट, पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
<b>610701</b>	<b>नाइटशर्ट, पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी वस्तुएं</b>			
61070101	सूत के	नग	3.9	23.1
61070102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
61070103	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.2
61070104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	31.2
61070105	ऊन के	नग	3.9	27.5
61070106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
61070107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	23.9
61070199	अन्यों के	नग	2.65	15.5

<b>610702</b>	<b>जांघिया, अंडरपेंट और वैसी ही वस्तुएं</b>			
61070201	सूत के	नग	3.3	6.9
61070202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	4.7
61070203	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	4.6
61070204	रेशम के (नाॅयल रेशम को जोड कर)	नग	3.9	22.4
61070205	ऊन के	नग	3.9	7.8
61070206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	6.2
61070207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	7.0
61070299	अन्य	नग	2.65	5.3
<b>6108</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के स्लिप, पेटीकोट, जांघिया, पेंटी, रात्रि पोशाक, पाजामा, नेग्लिजीन, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
<b>610801</b>	<b>रात्रि पोशाक पायजामा, नेग्लिजीज बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन, और ऐसी ही वस्तुएं</b>			
61080101	सूत के	नग	3.9	23.1
61080102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
61080103	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.2
61080104	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड कर)	नग	3.9	31.2
61080105	ऊन के	नग	3.9	27.5
61080106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
61080107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	23.9
61080199	अन्यों के	नग	2.65	15.5
<b>610802</b>	<b>स्लिप, पेटीकोट, जांघिया, पेंटीज और ऐसी ही वस्तुएं</b>			
61080201	सूत के	नग	3.2	6.7
61080202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	4.7
61080203	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	4.6
61080204	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड कर)	नग	3.9	22.4
61080205	ऊन के	नग	3.9	7.8
61080206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	6.2
61080207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.2	6.8
61080299	अन्य	नग	2.65	5.3
<b>6109</b>	<b>टी-शर्ट, सिंग्लेट और अन्य बनियान, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
610901	सूत के	नग	3.5	16.1
610902	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	11.4

610903	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	11.6
610904	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
610905	ऊन के	नग	3.9	19.7
610906	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	15.7
610907	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.5	16.2
610999	अन्यों के	नग	2.65	11.7
<b>6110</b>	<b>जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, वेस्टकोट और वेसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
611001	सूत के	नग	3.5	39.5
611002	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	27.7
611003	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	28.5
611004	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	57.2
611005	ऊन के	नग	3.9	50.5
611006	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	40.1
611007	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.5	41.6
611099	अन्यों के	नग	3.1	28.9
<b>6111</b>	<b>छोटे बच्चों के वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
611101	सूत के	नग	3.3	14.8
611102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	10.0
611103	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	10.8
611104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	22.4
611105	ऊन के	नग	3.9	18.4
611106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	14.6
611107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	15.3
611199	अन्यों के	नग	2.65	11.7
<b>6112</b>	<b>ट्रैक सूट, स्की सूट और तरण परिधान, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
611201	सूत के	नग	3.5	20.7
611202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
611203	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.2
611204	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	31.2
611205	ऊन के	नग	3.9	27.5
611206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
611207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.5	21.4
611299	अन्यों के	नग	2.65	15.5

<b>6113</b>	<b>शीर्ष सं. 5903, शीर्ष सं. 5906 या शीर्ष सं. 5907 के बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक से निर्मित, वस्त्र</b>			
611301	सूत के	नग	3.3	15.2
611302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	11.4
611303	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	11.6
611304	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	22.4
611305	ऊन के	नग	3.9	19.7
611306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	15.7
611399	अन्य	नग	2.65	11.7
<b>6114</b>	<b>अन्य वस्त्र, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
<b>611401</b>	<b>महिला अथवा लड़की के ब्लाउज, कमीज, कमीज ब्लाउज जो नीचे से कसावट सहित निट किया हुआ अथवा क्रोच किया गया हो</b>			
61140101	सूत के	नग	3.2	25.3
61140102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
61140103	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
61140104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
61140105	ऊन के	नग	3.9	27.5
61140106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
61140107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.2	24.0
61140199	अन्य	नग	2.65	20.1
<b>611402</b>	<b>महिला अथवा लड़की के टॉप्स / कैमि</b>			
61140201	सूत के	नग	3.2	25.3
61140202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
61140203	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
61140204	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
61140205	ऊन के	नग	3.9	27.5
61140206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
61140207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.2	24.0
61140299	अन्य	नग	2.65	20.1
<b>611403</b>	<b>अन्य जैकेट जो शीर्ष 6103 अथवा 6104 में निहित नहीं है</b>			
61140301	कॉटन का	नग	3.5	46.8
61140302	सूत और मानवनिर्मित तंतु वाले मिश्रण का	नग	3.1	35.9
61140303	मानव निर्मित तंतु का	नग	3.1	36.4
61140304	रेशम का (नॉयल रेशम को छोड़कर)	नग	3.9	88.4
61140305	ऊन का	नग	3.9	103.2
61140306	ऊन एवं मानव निर्मित रेशों वाले मिश्रण का	नग	3.1	69.3



61140399	अन्यों का	नग	3.1	41.3
<b>611404</b>	<b>अन्य</b>			
61140401	काँटन का	नग	3.2	14.7
61140402	सूत और मानवनिर्मित तंतु वाले मिश्रण का	नग	2.65	11.4
61140403	मानव निर्मित तंतु का	नग	2.65	11.6
61140404	रेशम का (नाँयल रेशम को छोड़कर)	नग	3.9	22.4
61140405	ऊन का	नग	3.9	19.7
61140406	ऊन एवं मानव निर्मित रेशों वाले मिश्रण का	नग	3.1	15.7
61140407	सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	3.2	38.2
61140499	अन्य	नग	2.65	11.7
<b>6115</b>	<b>पेंटी होज, टाइट, स्टार्किंग, मोजे और अन्य हौजरी, जिसके अंतर्गत बेरीकोस वेन्स के लिए स्टार्किंग और न लगे तल्लों के जूतादि हैं, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
611501	सूत के	कि.ग्रा.	3.3	60.8
611502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
611503	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
611504	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
611505	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
611506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
611507	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	कि.ग्रा.	3.3	66.0
611599	अन्य	कि.ग्रा.	2.65	45.9
<b>6116</b>	<b>दस्ताने, मिटन और मिट, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
611601	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
611602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
611603	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
611604	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
611605	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
611606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
611607	खेलकूद- में प्रयोग किए जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने, कपड़ा के बने हुए गोल्फ के दस्ताने	नग	2.65	6.6
611699	अन्य	कि.ग्रा.	2.65	45.9
<b>6117</b>	<b>अन्य निर्मित कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत, वस्त्रों के या कपड़ों के उपसाधनों के बुने या क्रोशियाकृत भाग</b>			

<b>611701</b>	शाल, स्कार्प, मफलर्स, स्टोल्स मेन्टिलाल और वेल्स			
61170101	सूत के	नग	3.2	14.3
61170102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	11.7
61170103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	12.0
61170104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
61170105	ऊन के	नग	3.9	17.4
61170106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	13.9
61170199	अन्यों के	नग	3.1	13.6
<b>611702</b>	<b>अन्य</b>			
61170201	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
61170202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
61170203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
61170204	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
61170205	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
61170206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
61170299	अन्य से	कि.ग्रा.	2.65	45.9

4%

<b>6201</b>	पुरुषों और लड़कों के ओवरकोट, कार कोट, चोगा, ऐनोरैक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6203 के अंतर्गत आती है			
620101	सूत के	नग	3.5	46.8
620102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
620103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
620104	रेशम के (नॉइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
620105	ऊन के	नग	3.9	103.2
620106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
620199	अन्यों के	नग	3.1	41.3
<b>6202</b>	स्त्रियों और लड़कियों के ओवरकोट कर कोट, केप, चोगा, ऐनोरैक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6204 के अंतर्गत आती है			
620201	सूत के	नग	3.5	46.8
620202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
620203	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
620204	रेशम के (नॉइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
620205	ऊन के	नग	3.9	103.2
620206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3

620299	अन्यों के	नग	3.1	41.3
<b>6203</b>	<b>पुरुषों और लड़कों के सूट, जोड़ा, जैकेट्स ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निकर (तरण परिधान से भिन्न)</b>			
<b>620301</b>	<b>सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)</b>			
62030101	सूट के	नग	3.5	80.0
62030102	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	63.6
62030103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	64.8
62030104	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	145.6
62030105	ऊन के	नग	3.9	153.7
62030106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	109.4
62030199	अन्यों का	नग	3.1	70.3
<b>620302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
62030201	सूट के	नग	3.5	46.8
62030202	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
62030203	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
62030204	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
62030205	ऊन के	नग	3.9	103.2
62030206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
62030207	सूट के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.5	49.4
62030299	अन्यों के	नग	3.1	41.3
<b>620303</b>	<b>ट्राउजर, फुल पैट्स</b>			
62030301	सूट के	नग	3.9	37.0
62030302	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.9	25.9
62030303	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.9	26.6
62030304	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	57.2
62030305	ऊन के	नग	3.9	50.5
62030306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	40.1
62030307	सूट के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	39.0
62030399	अन्यों के	नग	2.9	27.1
<b>620304</b>	<b>अन्य (कैपरी/श्रीफोर्थ पैट और इन्सेम्बल्ड सहित)</b>			
62030401	सूट के	नग	3.3	19.7
62030402	सूट और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
62030403	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	15.7
62030404	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
62030405	ऊन के	नग	3.9	27.5
62030406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9

62030407	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	20.6
62030499	अन्यों के	नग	2.65	15.5
<b>6204</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के सूट, जोड़ा, जैकेट ब्लेजर, पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निकर (तरण परिधान से भिन्न)</b>			
<b>620401</b>	<b>सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)</b>			
62040101	सूत के	नग	3.5	80.0
62040102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	63.6
62040103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	64.8
62040104	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	145.6
62040105	ऊन के	नग	3.9	153.7
62040106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	109.4
62040199	अन्यों का	नग	3.1	70.3
<b>620402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
62040201	सूत के	नग	3.5	46.8
62040202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
62040203	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
62040204	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
62040205	ऊन के	नग	3.9	103.2
62040206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
62040207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.5	49.4
62040299	अन्यों के	नग	3.1	41.3
<b>620403</b>	<b>पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, फुल पैंट्स</b>			
62040301	सूत के	नग	3.9	37.0
62040302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.9	25.9
62040303	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.9	26.6
62040304	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	57.2
62040305	ऊन के	नग	3.9	50.5
62040306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	40.1
62040307	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	39.0
62040399	अन्यों के	नग	2.9	27.1
<b>620404</b>	<b>अन्य (कैपरी /श्रीफोर्थ पैट और इन्सेम्बल्ड सहित)</b>			
62040401	सूत के	नग	3.3	19.7
62040402	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
62040403	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	15.7

62040404	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
62040405	ऊन के	नग	3.9	27.5
62040406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
62040407	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	20.6
62040499	अन्यों के	नग	2.65	15.5
<b>6205</b>	<b>पुरुषों और लड़कों की कमीजें</b>			
620501	सूत के	नग	3.9	33.4
620502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
620503	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
620504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
620505	ऊन के	नग	3.9	27.5
620506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
620507	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	29.3
620599	अन्यों के	नग	2.65	20.1
<b>6206</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के ब्लाउज, कमीजें और कमीज-ब्लाउज</b>			
620601	सूत के	नग	3.2	25.3
620602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
620603	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
620604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
620605	ऊन के	नग	3.9	27.5
620606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
620607	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.2	24.0
620699	अन्यों के	नग	2.65	20.1
<b>6207</b>	<b>पुरुषों और लड़कों के सिंगलेट और अन्य बनियान, अंडरपैट, जांघिया, नाइट शर्ट और पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं</b>			
<b>620701</b>	<b>ड्रेसिंग गाउन, बाथरोब, पाजामा, नाइट शर्ट और वैसी ही वस्तुएं</b>			
62070101	सूत के	नग	3.9	23.1
62070102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
62070103	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.2
62070104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	31.2
62070105	ऊन के	नग	3.9	27.5
62070106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
62070107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का	नग	3.9	23.9

	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो			
62070199	अन्यों के	नग	2.65	15.5
<b>620702</b>	<b>सिंगलेट और अन्य बनियान, अंडरपैट, जांघिया और वैसी ही वस्तुएं</b>			
62070201	सूत के	नग	3.3	6.9
62070202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	4.7
62070203	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	4.6
62070204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	22.4
62070205	ऊन के	नग	3.9	7.8
62070206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	6.2
62070207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	7.0
62070299	अन्य	नग	2.65	5.3
<b>6208</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के सिंगलेट और अन्य बनियान, स्लिप, पेटीकोट, जांघिया, पेंटीज, रात्रि पोशाक, पाजामा, नेग्लिजीज, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं</b>			
<b>620801</b>	<b>ड्रेसिंग गाउन, बाथरोब, पाजामा, , नेग्लिजीज, रात्रि पोशाक (नाइट शर्ट) और वैसी ही वस्तुएं</b>			
62080101	सूत के	नग	3.9	23.1
62080102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	15.3
62080103	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.2
62080104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	31.2
62080105	ऊन के	नग	3.9	27.5
62080106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
62080107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.9	23.9
62080199	अन्यों के	नग	2.65	15.5
<b>620802</b>	<b>सिंगलेट और अन्य बनियान, स्लिप, पेटीकोट, पेंटीज और वैसी ही वस्तुएं</b>			
62080201	सूत के	नग	3.3	6.9
62080202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	4.7
62080203	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	4.6
62080204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	22.4
62080205	ऊन के	नग	3.9	7.8
62080206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	6.2
62080207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	7.0
62080299	अन्य	नग	2.65	5.3
<b>6209</b>	<b>शिशु वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन</b>			

620901	सूत के	नग	3.3	14.8
620902	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	10.0
620903	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	10.8
620904	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	22.4
620905	ऊन के	नग	3.9	18.4
620906	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	14.6
620907	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3	15.3
620999	अन्य	नग	2.65	11.7
<b>6210</b>	<b>शीर्ष सं. 5602, शीर्ष सं. 5603, शीर्ष सं. 5903, शीर्ष सं. 5906 या शीर्ष सं. 5907 के फैब्रिक से निर्मित वस्त्र</b>			
621001	सूत के	नग	3.2	14.7
621002	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	11.4
621003	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	11.6
621004	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	22.4
621005	ऊन के	नग	3.9	19.7
621006	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	15.7
621099	अन्य	नग	2.65	11.7
<b>6211</b>	<b>ट्रेक सूट, स्की सूट और तरण परिधान, अन्य वस्त्र</b>			
<b>621101</b>	<b>महिला अथवा लड़की के ब्लाउज, कमीज, कमीज ब्लाउज जो नीचे से कसावट किया गया हो</b>			
62110101	सूत के	नग	3.2	25.3
62110102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
62110103	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
62110104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
62110105	ऊन के	नग	3.9	27.5
62110106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
62110107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.2	24.0
62110199	अन्यों के	नग	2.65	20.1
<b>621102</b>	<b>महिला अथवा लड़की के टॉप्स / कैमि</b>			
62110201	सूत के	नग	3.2	25.3
62110202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	16.7
62110203	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	16.1
62110204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
62110205	ऊन के	नग	3.9	27.5
62110206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	21.9
62110207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.2	24.0

62110299	अन्यों के	नग	2.65	20.1
<b>621103</b>	<b>अन्य जैकेट जो शीर्ष 6203 अथवा 6204 में निहित नहीं है</b>			
62110301	सूत के	नग	3.5	46.8
62110302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	35.9
62110303	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	36.4
62110304	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	88.4
62110305	ऊन के	नग	3.9	103.2
62110306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	69.3
62110399	अन्यों के	नग	3.1	41.3
<b>621104</b>	<b>बचावकारी औद्योगिक वस्त्र</b>			
62110401	सूत से बने समग्र सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	3.2	59.1
62110402	सूत से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	2.65	31.7
62110403	एरामिड फाइबर से बने समग्र सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	2.65	87.6
62110404	एरामिड फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	2.65	61.3
62110405	मोडोक्रीलिक फाइबर से बने समग्र सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	2.65	84.0
62110406	मोडोक्रीलिक फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	2.65	56.0
62110499	अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	2.65	31.7
<b>621105</b>	<b>अन्य</b>			
62110501	सूत के	नग	3.2	14.7
62110502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	2.65	11.4
62110503	मानव निर्मित तंतु के	नग	2.65	11.6
62110504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	22.4
62110505	ऊन के	नग	3.9	19.7
62110506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	15.7
62110599	अन्यों के	नग	2.65	11.7
<b>6212</b>	<b>ब्रेजियर, गर्डल, कार्सेट, ब्रेस, सस्पेंडर, गार्टर और वैसी ही वस्तुएं और उनके भाग, चाहे बुने या क्रोशियाकृत हैं या नहीं</b>			
621201	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
621202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
621203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
621204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
621205	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
621206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6



621299	अन्य	कि.ग्रा.	2.65	45.9
<b>6213</b>	<b>रूमाल</b>			
621301	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
621302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
621303	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
621304	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
621305	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
621306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
621399	अन्य	कि.ग्रा.	2.65	45.9
<b>6214</b>	<b>शाल, स्कार्फ, मफलर, ओढ़नी वेल और वैसी ही वस्तुएं</b>			
<b>621401</b>	<b>शाल, स्कार्फ, मफलर्स, स्टोल्स, मैल्टीलास और वेल्स</b>			
62140101	सूत के	नग	3.2	14.3
62140102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	11.7
62140103	मानव निर्मित तंतु के	नग	3.1	12.0
62140104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	3.9	41.6
62140105	ऊन के	नग	3.9	17.4
62140106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.1	13.9
62140199	अन्यों के	नग	3.1	13.6
<b>621402</b>	<b>अन्य</b>			
62140201	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
62140202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
62140203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
62140204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
62140205	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
62140206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
62140299	अन्यों के	कि.ग्रा.	2.65	45.9
<b>6215</b>	<b>टाइयां, बो टाइयां और कैरावट्स</b>			
621501	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
621502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
621503	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
621504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
621505	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6

621506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
621599	अन्यों के	कि.ग्रा.	2.65	45.9
<b>6216</b>	<b>दस्ताने, मिटन और मिटस</b>			
621601	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
621602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
621603	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
621604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
621605	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
621606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
621607	खेलकूद- में प्रयोग किए जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने, कपड़ा के बने हुए गोल्फ के दस्ताने	नग	2.65	6.6
621699	अन्य के	कि.ग्रा.	2.65	45.9
<b>6217</b>	<b>अन्य निर्मित कपड़ा उपसाधन, वस्त्रों के या कपड़ों के उपसाधनों के भाग, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6212 के हैं</b>			
621701	सूत के	कि.ग्रा.	3.2	58.9
621702	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	2.65	44.6
621703	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	2.65	48.7
621704	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	3.9	265.2
621705	ऊन के	कि.ग्रा.	3.9	82.6
621706	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.1	65.6
621799	अन्यों के	कि.ग्रा.	2.65	45.9

### अनुसूची-II

#### एए-एआईआर संयोजन के अंतर्गत राज्य लेवी छूट दर

		एफ	
टैरिफ मद	वर्तमान एआईआर ड्राबैक अनुसूची के अंतर्गत सामानों का विवरण	यूनिट	अग्रिम प्राधिकार योजना सहित राज्य लेवी की छूट
			छूट दर (%)      रू. में प्रति यूनिट छूट सीमा

### अध्याय-61

#### परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6101	पुरुषों और लड़कों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (जिसके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं),			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6103 के अंतर्गत आती हैं			
610101	सूत के	नग	1.3	24.3
610102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
610103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
610104	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
610105	ऊन के	नग	1.2	44.5
610106	ऊन एवं मानव निर्मित रेशों वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
610199	अन्य के	नग	1.2	22.4
6102	स्त्रियों और लड़कियों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (जिसके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6104 के अंतर्गत आती हैं			
610201	सूत के	नग	1.3	24.3
610202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
610203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
610204	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
610205	ऊन के	नग	1.2	44.5
610206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
610299	अन्यों के	नग	1.2	22.4
6103	पुरुषों और लड़कों के सूट, जोड़ा, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और मिकर (तरण परिधान से भिन्न), बुने या क्रोशियाकृत			
610301	सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)			
61030101	सूत के	नग	1.3	41.6
61030102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	35.9
61030103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	36.6
61030104	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	62.7
61030105	ऊन के	नग	1.2	66.2
61030106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	61.8
61030199	अन्यों का	नग	1.2	38.1
610302	जैकेट, ब्लेजर			
61030201	सूत के	नग	1.3	24.3
61030202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
61030203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
61030204	रेशम के (नाॅयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61030205	ऊन के	नग	1.2	44.5
61030206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
61030207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	25.7
61030299	अन्यों के	नग	1.2	22.4
<b>610303</b>	<b>ट्राउजर/ फुल पैट्स</b>			
61030301	सूत के	नग	1.3	17.3
61030302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	15.7
61030303	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	16.1
61030304	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.3	26.7
61030305	ऊन के	नग	1.3	23.6
61030306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	24.5
61030307	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	18.2
61030399	अन्यों के	नग	1.25	16.3
<b>610304</b>	<b>अन्य (कैफरी /श्रीफोर्थ पैट और इन्सेम्बल सहित)</b>			
61030401	सूत के	नग	1.15	9.6
61030402	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	9.3
61030403	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.2
61030404	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.15	17.2
61030405	ऊन के	नग	1.15	11.4
61030406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	11.4
61030407	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	10.1
61030499	अन्यों के	नग	1.15	9.4
<b>6104</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के सूट, जोड़ा, जैकेट, ब्लेजर, पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और नकर (तरण परिधान से भिन्न), बुने या क्रोशियाकृत</b>			
<b>610401</b>	<b>सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)</b>			
61040101	सूत के	नग	1.3	41.6
61040102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	35.9
61040103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	36.6
61040104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	62.7
61040105	ऊन के	नग	1.2	66.2
61040106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	61.8
61040199	अन्यों का	नग	1.2	38.1
<b>610402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61040201	सूत के	नग	1.3	24.3
61040202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
61040203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
61040204	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
61040205	ऊन के	नग	1.2	44.5
61040206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
61040207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	25.7
61040299	अन्यों के	नग	1.2	22.4
<b>610403</b>	<b>पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, फुल पैट्स</b>			
61040301	सूत के	नग	1.3	18.5
61040302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	15.7
61040303	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	16.1
61040304	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.3	26.7
61040305	ऊन के	नग	1.3	23.6
61040306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	24.5
61040307	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	18.2
61040399	अन्यों के	नग	1.25	16.3
<b>610404</b>	<b>अन्य (कैपरी /श्री फोर्थ पैट और इन्सेम्बल्ड सहित)</b>			
61040401	सूत के	नग	1.15	9.6
61040402	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	9.3
61040403	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.2
61040404	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.15	17.2
61040405	ऊन के	नग	1.15	11.4
61040406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	11.4
61040407	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	10.1
61040499	अन्यों के	नग	1.15	9.4
<b>6105</b>	<b>पुरुषों और लड़कों की कमीजें, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
610501	सूत के	नग	1.2	13.3
610502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
610503	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.5
610504	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
610505	ऊन के	नग	1.35	13.3
610506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
610507	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	12.6
610599	अन्यों के	नग	1.2	12.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6106</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों की ब्लाउज, कमीजें और कमीज-ब्लाउज,, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
610601	सूत के	नग	1.3	14.4
610602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
610603	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.5
610604	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
610605	ऊन के	नग	1.35	13.3
610606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
610607	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	13.7
610699	अन्यों के	नग	1.3	13.8
<b>6107</b>	<b>पुरुषों और लड़कों के अंडरपेंट, जांघिया, नाइटशर्ट, पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			
<b>610701</b>	<b>नाइटशर्ट, पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी वस्तुएं</b>			
61070101	सूत के	नग	1.3	10.8
61070102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	10.9
61070103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.6
61070104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	15.1
61070105	ऊन के	नग	1.35	13.3
61070106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
61070107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	10.3
61070199	अन्यों के	नग	1.3	10.7
<b>610702</b>	<b>जांघिया, अंडरपेंट और वैसी ही वस्तुएं</b>			
61070201	सूत के	नग	1.15	3.4
61070202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.4
61070203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	3.3
61070204	रेशम के (नॉयल रेशम को जोड़ कर)	नग	1.35	10.8
61070205	ऊन के	नग	1.35	3.8
61070206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.8
61070207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	3.4
61070299	अन्य	नग	1.15	3.2
<b>6108</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के स्लिप, पेटिकोट, जांघिया, पेंटी, रात्रि पोशाक, पाजामा, नेग्लिजीन, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत</b>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>610801</b>	रात्रि पोशक पायजामा, नेग्लिजीज बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन, और ऐसी ही वस्तुएं			
61080101	सूत के	नग	1.3	10.8
61080102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	10.9
61080103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.6
61080104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	15.1
61080105	ऊन के	नग	1.35	13.3
61080106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
61080107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	11.1
61080199	अन्यों के	नग	1.3	10.7
<b>610802</b>	स्लिप, पेटीकोट, जांचिया, पेंटीज और ऐसी ही वस्तुएं			
61080201	सूत के	नग	1.15	3.4
61080202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.4
61080203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	3.3
61080204	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	10.8
61080205	ऊन के	नग	1.35	3.8
61080206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.8
61080207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	3.4
61080299	अन्य	नग	1.15	3.2
<b>6109</b>	टी-शर्ट, सिंग्लेट और अन्य बनियान, बुनी या क्रोशियाकृत			
610901	सूत के	नग	1.15	10.2
610902	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.6
610903	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	10.6
610904	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
610905	ऊन के	नग	1.35	9.6
610906	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	9.6
610907	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	10.3
610999	अन्यों के	नग	1.15	7.1
<b>6110</b>	जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, वेस्टकोट और वेसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत			
611001	सूत के	नग	1.3	20.6
611002	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	15.7
611003	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	16.1
611004	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	24.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
611005	ऊन के	नग	1.2	21.7
611006	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	22.6
611007	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	21.6
611099	अन्यों के	नग	1.2	15.7
<b>6111</b>	<b>छोटे बच्चों के वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
611101	सूत के	नग	1.2	7.5
611102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	6.6
611103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	7.1
611104	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.25	10.0
611105	ऊन के	नग	1.25	8.2
611106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	8.2
611107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	7.8
611199	अन्यों के	नग	1.2	7.4
<b>6112</b>	<b>ट्रेक सूट, स्की सूट और तरण परिधान, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
611201	सूत के	नग	1.15	9.5
611202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	10.9
611203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.6
611204	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	15.1
611205	ऊन के	नग	1.35	13.3
611206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
611207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	10.3
611299	अन्यों के	नग	1.15	9.4
<b>6113</b>	<b>शीर्ष सं. 5903, शीर्ष सं. 5906 या शीर्ष सं. 5907 के बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक से निर्मित, वस्त्र</b>			
611301	सूत के	नग	1.15	7.4
611302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	8.2
611303	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	8.3
611304	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	10.8
611305	ऊन के	नग	1.35	9.6
611306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	9.6
611399	अन्य	नग	1.15	7.1
<b>6114</b>	<b>अन्य वस्त्र, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
<b>611401</b>	<b>महिला अथवा लड़की के ब्लाउज, कमीज, कमीज ब्लाउज जो नीचे से कसावट सहित निट किया हुआ अथवा क्रोच किया गया हो</b>			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61140101	सूत के	नग	1.3	14.4
61140102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
61140103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.5
61140104	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
61140105	ऊन के	नग	1.35	13.3
61140106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
61140107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	13.7
61140199	अन्य	नग	1.3	13.8
<b>611402</b>	<b>महिला अथवा लड़की के टॉप्स / कैमि</b>			
61140201	सूत के	नग	1.15	12.7
61140202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
61140203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.5
61140204	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
61140205	ऊन के	नग	1.35	13.3
61140206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
61140207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	12.6
61140299	अन्य	नग	1.15	12.2
<b>611403</b>	<b>अन्य जैकेट जो शीर्ष 6103 अथवा 6104 में निहित नहीं है</b>			
61140301	काँटन का	नग	1.3	24.3
61140302	सूत और मानवनिर्मित तंतु वाले मिश्रण का	नग	1.25	20.3
61140303	मानव निर्मित तंतु का	नग	1.25	20.5
61140304	रेशम का (नाँयल रेशम को छोड़कर)	नग	1.2	38.1
61140305	ऊन का	नग	1.2	44.5
61140306	ऊन एवं मानव निर्मित रेशों वाले मिश्रण का	नग	1.25	39.1
61140399	अन्यों का	नग	1.2	22.4
<b>611404</b>	<b>अन्य</b>			
61140401	काँटन का	नग	1.15	7.4
61140402	सूत और मानवनिर्मित तंतु वाले मिश्रण का	नग	1.25	7.6
61140403	मानव निर्मित तंतु का	नग	1.25	7.7
61140404	रेशम का (नाँयल रेशम को छोड़कर)	नग	1.25	10.0
61140405	ऊन का	नग	1.25	8.9
61140406	ऊन एवं मानव निर्मित रेशों वाले मिश्रण का	नग	1.25	8.9
61140407	सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.15	19.2
61140499	अन्य	नग	1.15	7.1
<b>6115</b>	<b>पेंटी होज, टाइट, स्टार्किंग, मोजे और अन्य हौजरी, जिसके अंतर्गत बेरीकोस वेन्स के लिए स्टार्किंग और न लगे तल्लों के जूतादि हैं, बुने या क्रोशियाकृत</b>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
611501	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
611502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	31.8
611503	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.35	34.7
611504	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.35	128.5
611505	ऊन के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
611506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
611507	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	कि.ग्रा.	1.15	32.2
611599	अन्य	कि.ग्रा.	1.15	27.9
<b>6116</b>	<b>दस्ताने, मिटन और मिट, बुने या क्रोशियाकृत</b>			
611601	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
611602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	31.8
611603	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.35	34.7
611604	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.35	128.5
611605	ऊन के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
611606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
611607	खेलकूद- में प्रयोग किए जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने, कपड़ा के बने हुए गोल्फ के दस्ताने	नग	1.35	4.7
611699	अन्य	कि.ग्रा.	1.15	27.9
<b>6117</b>	<b>अन्य निर्मित कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत, वस्त्रों के या कपड़ों के उपसाधनों के बुने या क्रोशियाकृत भाग</b>			
<b>611701</b>	<b>शाल, स्कार्प, मफलर्स, स्टोल्स मेन्टिलाल और वेल्स</b>			
61170101	सूत के	नग	1.15	7.2
61170102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	7.2
61170103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	7.3
61170104	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.15	17.2
61170105	ऊन के	नग	1.15	7.2
61170106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	8.4
61170199	अन्यों के	नग	1.15	7.1
<b>611702</b>	<b>अन्य</b>			
61170201	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
61170202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	29.5
61170203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.25	32.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61170204	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.25	119.0
61170205	ऊन के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
61170206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
61170299	अन्य से	कि.ग्रा.	1.15	27.9

4%

<b>6201</b>	पुरुषों और लड़कों के ओवरकोट, कार कोट, चोगा, ऐनोरैक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं) , विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6203 के अंतर्गत आती है			
620101	सूत के	नग	1.3	24.3
620102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
620103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
620104	रेशम के (नाँइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
620105	ऊन के	नग	1.2	44.5
620106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
620199	अन्यों के	नग	1.2	22.4
<b>6202</b>	स्त्रियों और लड़कियों के ओवरकोट कर कोट, केप, चोगा, ऐनोरैक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और वेसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6204 के अंतर्गत आती है			
620201	सूत के	नग	1.3	24.3
620202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
620203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
620204	रेशम के (नाँइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
620205	ऊन के	नग	1.2	44.5
620206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
620299	अन्यों के	नग	1.2	22.4
<b>6203</b>	पुरुषों और लड़कों के सूट, जोड़ा, जैकेट्स ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निकर (तरण परिधान से भिन्न )			
<b>620301</b>	सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)			
62030101	सूत के	नग	1.3	41.6
62030102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	35.9
62030103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	36.6
62030104	रेशम के (नाँयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	62.7
62030105	ऊन के	नग	1.2	66.2
62030106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	61.8
62030199	अन्यों का	नग	1.2	38.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>620302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
62030201	सूत के	नग	1.3	26.7
62030202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
62030203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
62030204	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
62030205	ऊन के	नग	1.2	56.5
62030206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	54.4
62030207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	25.7
62030299	अन्यों के	नग	1.2	22.4
<b>620303</b>	<b>ट्राउजर, फुल पैट्स</b>			
62030301	सूत के	नग	1.3	16.8
62030302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	15.7
62030303	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	17.3
62030304	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.3	26.7
62030305	ऊन के	नग	1.3	39.7
62030306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	33.9
62030307	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	18.2
62030399	अन्यों के	नग	1.25	16.3
<b>620304</b>	<b>अन्य (कैपरी/श्रीफोर्थ पैट और इन्सेम्बल्ड सहित)</b>			
62030401	सूत के	नग	1.15	9.6
62030402	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	9.3
62030403	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.2
62030404	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.15	17.2
62030405	ऊन के	नग	1.15	11.4
62030406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	11.4
62030407	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	10.1
62030499	अन्यों के	नग	1.15	9.4
<b>6204</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के सूट, जोड़ा, जैकेट ब्लेजर, पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निकर (तरण परिधान से भिन्न)</b>			
<b>620401</b>	<b>सूट (जिसमें कम से कम एक पतलून और एक जैकेट शामिल हो)</b>			
62040101	सूत के	नग	1.3	41.6
62040102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	35.9
62040103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	36.6
62040104	रेशम के (नायल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	62.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62040105	ऊन के	नग	1.2	66.2
62040106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	61.8
62040199	अन्यों का	नग	1.2	38.1
<b>620402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
62040201	सूत के	नग	1.3	33.1
62040202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
62040203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
62040204	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
62040205	ऊन के	नग	1.2	44.5
62040206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
62040207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	25.7
62040299	अन्यों के	नग	1.2	22.4
<b>620403</b>	<b>पोशाक, स्कर्ट, विभक्त स्कर्ट, ट्राउजर, फुल पैट्स</b>			
62040301	सूत के	नग	1.3	17.3
62040302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	15.7
62040303	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	15.6
62040304	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.3	26.7
62040305	ऊन के	नग	1.3	23.6
62040306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	24.5
62040307	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	18.2
62040399	अन्यों के	नग	1.25	16.3
<b>620404</b>	<b>अन्य (कैपरी /श्रीफोर्थ पैट और इन्सेम्बल्ड सहित)</b>			
62040401	सूत के	नग	1.15	14.0
62040402	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	9.3
62040403	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.0
62040404	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.15	17.2
62040405	ऊन के	नग	1.15	11.4
62040406	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.15	11.4
62040407	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	10.1
62040499	अन्यों के	नग	1.15	9.4
<b>6205</b>	<b>पुरुषों और लड़कों की कमीजें</b>			
620501	सूत के	नग	1.2	14.5
620502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
620503	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.5
620504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
620505	ऊन के	नग	1.35	13.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
620506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
620507	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	12.6
620599	अन्यों के	नग	1.2	12.8
<b>6206</b>	<b>स्त्रियों और लड़कियों के ब्लाउज, कमीजें और कमीज-ब्लाउज</b>			
620601	सूत के	नग	1.3	14.0
620602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
620603	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	12.6
620604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
620605	ऊन के	नग	1.35	13.3
620606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
620607	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	13.7
620699	अन्यों के	नग	1.3	13.8
<b>6207</b>	<b>पुरुषों और लड़कों के सिंगलेट और अन्य बनियान, अंडरपैट, जांघिया, नाइट शर्ट और पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं</b>			
<b>620701</b>	<b>ड्रेसिंग गाउन, बाथरोब, पाजामा, नाइट शर्ट और वैसी ही वस्तुएं</b>			
62070101	सूत के	नग	1.3	10.8
62070102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	10.9
62070103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.6
62070104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	15.1
62070105	ऊन के	नग	1.35	13.3
62070106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
62070107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	10.3
62070199	अन्यों के	नग	1.3	10.7
<b>620702</b>	<b>सिंगलेट और अन्य बनियान, अंडरपैट, जांघिया और वैसी ही वस्तुएं</b>			
62070201	सूत के	नग	1.15	3.4
62070202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.4
62070203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	3.3
62070204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	10.8
62070205	ऊन के	नग	1.35	3.8
62070206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.8
62070207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	3.4
62070299	अन्य	नग	1.15	3.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6208	स्त्रियों और लड़कियों के सिंगलेट और अन्य बनियान, स्लिप, पेटीकोट, जांघिया, पेंटीज, रात्रि पोशाक, पाजामा, नेग्लिजीज, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं			
620801	ड्रेसिंग गाउन, बाथरोब, पाजामा, , नेग्लिजीज, रात्रि पोशाक (नाइट शर्ट) और वैसी ही वस्तुएं			
62080101	सूत के	नग	1.3	10.8
62080102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	10.9
62080103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.6
62080104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	15.1
62080105	ऊन के	नग	1.35	13.3
62080106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
62080107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	11.1
62080199	अन्यों के	नग	1.3	10.7
620802	सिंगलेट और अन्य बनियान, स्लिप, पेटीकोट, पेंटीज और वैसी ही वस्तुएं			
62080201	सूत के	नग	1.15	3.4
62080202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.4
62080203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	3.3
62080204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	10.8
62080205	ऊन के	नग	1.35	3.8
62080206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	3.8
62080207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.15	3.4
62080299	अन्य	नग	1.15	3.2
6209	शिशु वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन			
620901	सूत के	नग	1.2	7.5
620902	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	6.6
620903	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	7.1
620904	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.25	10.0
620905	ऊन के	नग	1.25	8.2
620906	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	8.2
620907	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	7.8
620999	अन्य	नग	1.2	7.4
6210	शीर्ष सं. 5602, शीर्ष सं. 5603, शीर्ष सं. 5903, शीर्ष सं. 5906 या शीर्ष सं. 5907 के फैब्रिक से निर्मित वस्त्र			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
621001	सूत के	नग	1.15	7.4
621002	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	8.2
621003	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	8.3
621004	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	10.8
621005	ऊन के	नग	1.35	9.6
621006	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	9.6
621099	अन्य	नग	1.15	7.1
<b>6211</b>	<b>ट्रेक सूट, स्की सूट और तरण परिधान, अन्य वस्त्र</b>			
<b>621101</b>	<b>महिला अथवा लड़की के ब्लाउज, कमीज, कमीज ब्लाउज जो नीचे से कसावट किया गया हो</b>			
62110101	सूत के	नग	1.3	14.4
62110102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
62110103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.5
62110104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
62110105	ऊन के	नग	1.35	13.3
62110106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
62110107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.3	13.7
62110199	अन्यों के	नग	1.3	13.8
<b>621102</b>	<b>महिला अथवा लड़की के टॉप्स / कैमि</b>			
62110201	सूत के	नग	1.15	12.7
62110202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	11.9
62110203	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	11.5
62110204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.35	20.2
62110205	ऊन के	नग	1.35	13.3
62110206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	13.3
62110207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	1.2	12.6
62110299	अन्यों के	नग	1.15	12.2
<b>621103</b>	<b>अन्य जैकेट जो शीर्ष 6203 अथवा 6204 में निहित नहीं है</b>			
62110301	सूत के	नग	1.3	24.3
62110302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	20.3
62110303	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	20.5
62110304	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.2	38.1
62110305	ऊन के	नग	1.2	44.5
62110306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	39.1
62110399	अन्यों के	नग	1.2	22.4
<b>621104</b>	<b>बचावकारी औद्योगिक वस्त्र</b>			
62110401	सूत से बने समग्र सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.25	32.3



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62110402	सूत से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.35	22.6
62110403	एरामिड फाइबर से बने समग्र सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.35	62.5
62110404	एरामिड फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.35	43.7
62110405	मोडाक्रीलिक फाइबर से बने समग्र सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.35	59.9
62110406	मोडाक्रीलिक फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.35	40.0
62110499	अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	1.25	20.9
<b>621105</b>	<b>अन्य</b>			
62110501	सूत के	नग	1.15	7.4
62110502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	7.6
62110503	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.25	7.7
62110504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.25	10.0
62110505	ऊन के	नग	1.25	8.9
62110506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.25	8.9
62110599	अन्यों के	नग	1.15	7.1
<b>6212</b>	<b>ब्रेजियर, गर्डल, कार्सेट, ब्रेस, सस्पेंडर, गार्टर और वैसी ही वस्तुएं और उनके भाग, चाहे बुने या क्रोशियाकृत हैं या नहीं</b>			
621201	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
621202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	31.8
621203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.35	34.7
621204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.35	128.5
621205	ऊन के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
621206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
621299	अन्य	कि.ग्रा.	1.15	27.9
<b>6213</b>	<b>रूमाल</b>			
621301	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
621302	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	31.8
621303	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.35	34.7
621304	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.35	128.5
621305	ऊन के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
621306	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
621399	अन्य	कि.ग्रा.	1.15	27.9
<b>6214</b>	<b>शाल, स्कार्फ, मफलर, ओढ़नी वेल और वैसी ही</b>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>वस्तुएं</b>			
<b>621401</b>	<b>शाल, स्कार्ब, मफलर्स, स्टोल्स, मैल्टीलास और वेल्स</b>			
62140101	सूत के	नग	1.15	7.2
62140102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	7.2
62140103	मानव निर्मित तंतु के	नग	1.35	7.3
62140104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.15	17.2
62140105	ऊन के	नग	1.15	7.2
62140106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	1.35	8.4
62140199	अन्यों के	नग	1.15	7.1
<b>621402</b>	<b>अन्य</b>			
62140201	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
62140202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	29.5
62140203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.25	32.1
62140204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.25	119.0
62140205	ऊन के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
62140206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
62140299	अन्यों के	कि.ग्रा.	1.15	27.9
<b>6215</b>	<b>टाइयां, बो टाइयां और कैरावट्स</b>			
621501	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
621502	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	29.5
621503	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.25	32.1
621504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.25	119.0
621505	ऊन के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
621506	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
621599	अन्यों के	कि.ग्रा.	1.15	27.9
<b>6216</b>	<b>दस्ताने, मिटन और मिटस</b>			
621601	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
621602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	31.8
621603	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.35	34.7
621604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.35	128.5
621605	ऊन के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
621606	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.35	40.0
621607	खेलकूद- में प्रयोग किए जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने, कपड़ा के बने हुए गोल्फ	नग	1.35	4.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	के दस्ताने			
621699	अन्य के	कि.ग्रा.	1.15	27.9
6217	अन्य निर्मित कपड़ा उपसाधन, वस्त्रों के या कपड़ों के उपसाधनों के भाग, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6212 के हैं			
621701	सूत के	कि.ग्रा.	1.15	29.7
621702	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	29.5
621703	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	1.25	32.1
621704	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	1.25	119.0
621705	ऊन के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
621706	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	1.25	37.1
621799	अन्यों के	कि.ग्रा.	1.15	27.9

## MINISTRY OF TEXTILES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2016

#### RATES FOR REBATE OF STATE LEVIES ON EXPORT OF GARMENTS

**No.12020/03/2016-IT.**—In pursuance of the decision of the Government of India to initiate measures for reforms to boost employment generation in the employment intensive textile and apparel sector, and approval of a new scheme for remission of State Levies on garments, the Ministry of Textiles has notified the scheme to provide for the remission of State levies on export of garments through the mechanism of rebate. The scheme is called the **Scheme for Rebate of State Levies on Export of Garments 2016**. (hereinafter referred to as the **ROSL Scheme**).

2. The rates for the ROSL Scheme are hereby notified as schedules 1 and 2 annexed to this notification. This notification shall come into force with effect from 20<sup>th</sup> September 2016. The Schedule 1 is the general rebate and the Schedule 2 is the rates of rebate applicable for exports when the fabric (including interlining) only has been imported duty free under Special Advance Authorization Scheme. The rates of rebate are not divisible into any component of tax or input and are provided only on average basis calculated in a like manner as the All Industry Rates of Drawback.

3. The amount of rebate shall be calculated using the FOB value. The general rate of rebate with cap for a tariff item as shown in columns (4)&(5) of Schedule 1 of rates being notified shall be applied for calculation when the item has claim for AIR Drawback or export under claim for brand rate drawback with claim for provisional Customs portion of AIR. The rate of rebate with cap for a tariff item as shown in columns (4)&(5) of Schedule 2 of rates being notified shall be applied for calculation when the item has exports against the Special Advance Authorization Scheme where duty free fabric (including interlining) only has been imported.

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.

**SCHEDULE-I**  
**STATE LEVIES REBATE RATE SCHEDULE**

Tariff Item	Description of goods under current AIR Drawback Schedule	Unit	E	
			Rebate of State Levies	
			Rebate Rate (%)	Rebate cap per unit in Rs. ( )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**CHAPTER – 61**  
**ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED**

6101	Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103			
610101	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
610102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
610103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
610104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
610105	Of Wool	Piece	3.9	103.2
610106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
610199	Of Others	Piece	3.1	41.3
6102	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104			
610201	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
610202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
610203	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
610204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
610205	Of Wool	Piece	3.9	103.2
610206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
610299	Of Others	Piece	3.1	41.3
6103	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted			
610301	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
61030101	Of Cotton	Piece	3.5	80.0
61030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	63.6
61030103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	64.8
61030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	145.6
61030105	Of Wool	Piece	3.9	153.7
61030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	109.4
61030199	Of Others	Piece	3.1	70.3
610302	Jackets, blazers			
61030201	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
61030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9

61030203	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
61030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
61030205	Of Wool	Piece	3.9	103.2
61030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
61030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.5	49.4
61030299	Of Others	Piece	3.1	41.3
610303	Trousers, full pants			
61030301	Of Cotton	Piece	3.9	37.0
61030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.9	25.9
61030303	Of Man Made Fibres	Piece	2.9	26.6
61030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	57.2
61030305	Of Wool	Piece	3.9	50.5
61030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	40.1
61030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.9	39.0
61030399	Of Others	Piece	2.9	27.1
610304	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
61030401	Of Cotton	Piece	3.3	19.7
61030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
61030403	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	15.7
61030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
61030405	Of Wool	Piece	3.9	27.5
61030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
61030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.3	20.6
61030499	Of Others	Piece	2.65	15.5
6104	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted			
610401	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
61040101	Of Cotton	Piece	3.5	80.0
61040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	63.6
61040103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	64.8
61040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	145.6
61040105	Of Wool	Piece	3.9	153.7
61040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	109.4
61040199	Of Others	Piece	3.1	70.3
610402	Jackets, blazers			
61040201	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
61040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
61040203	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
61040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
61040205	Of Wool	Piece	3.9	103.2
61040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3

61040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.5	49.4
61040299	Of Others	Piece	3.1	41.3
610403	Dresses, skirts, divided skirts, trousers, full pants			
61040301	Of Cotton	Piece	3.9	37.0
61040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.9	25.9
61040303	Of Man Made Fibres	Piece	2.9	26.6
61040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	57.2
61040305	Of Wool	Piece	3.9	50.5
61040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	40.1
61040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.9	39.0
61040399	Of Others	Piece	2.9	27.1
610404	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
61040401	Of Cotton	Piece	3.3	19.7
61040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
61040403	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	15.7
61040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
61040405	Of Wool	Piece	3.9	27.5
61040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
61040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.3	20.6
61040499	Of Others	Piece	2.65	15.5
6105	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted			
610501	Of Cotton	Piece	3.9	30.8
610502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
610503	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
610504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
610505	Of Wool	Piece	3.9	27.5
610506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
610507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.9	29.3
610599	Of Others	Piece	2.65	20.1
6106	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted			
610601	Of Cotton	Piece	3.2	25.3
610602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
610603	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
610604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
610605	Of Wool	Piece	3.9	27.5
610606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
610607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.2	24.0
610699	Of Others	Piece	2.65	20.1
6107	Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or			

	crocheted			
610701	Nightshirts, pyjamas, bath robes and dressing gowns and similar articles			
61070101	Of Cotton	Piece	3.9	23.1
61070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
61070103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.2
61070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	31.2
61070105	Of Wool	Piece	3.9	27.5
61070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
61070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.9	23.9
61070199	Of Others	Piece	2.65	15.5
610702	Briefs, underpants and similar articles			
61070201	Of Cotton	Piece	3.3	6.9
61070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	4.7
61070203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	4.6
61070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
61070205	Of Wool	Piece	3.9	7.8
61070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	6.2
61070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.3	7.0
61070299	Of Others	Piece	2.65	5.3
6108	Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted			
610801	Night dresses (including nightshirts), pyjamas, negligees bathrobes and dressing gowns and similar articles			
61080101	Of Cotton	Piece	3.9	23.1
61080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
61080103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.2
61080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	31.2
61080105	Of Wool	Piece	3.9	27.5
61080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
61080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.9	23.9
61080199	Of Others	Piece	2.65	15.5
610802	Slips, petticoats, briefs, panties and similar articles			
61080201	Of Cotton	Piece	3.2	6.7
61080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	4.7
61080203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	4.6
61080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
61080205	Of Wool	Piece	3.9	7.8
61080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	6.2
61080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.2	6.8
61080299	Of Others	Piece	2.65	5.3

6109	T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted			
610901	Of Cotton	Piece	3.5	16.1
610902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	11.4
610903	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	11.6
610904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
610905	Of Wool	Piece	3.9	19.7
610906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	15.7
610907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.5	16.2
610999	Of Others	Piece	2.65	11.7
6110	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats an similar articles, knitted or crocheted			
611001	Of Cotton	Piece	3.5	39.5
611002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	27.7
611003	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	28.5
611004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	57.2
611005	Of Wool	Piece	3.9	50.5
611006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	40.1
611007	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.5	41.6
611099	Of Others	Piece	3.1	28.9
6111	Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted			
611101	Of Cotton	Piece	3.3	14.8
611102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	10.0
611103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	10.8
611104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
611105	Of Wool	Piece	3.9	18.4
611106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	14.6
611107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.3	15.3
611199	Of Others	Piece	2.65	11.7
6112	Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted			
611201	Of Cotton	Piece	3.5	20.7
611202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
611203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.2
611204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	31.2
611205	Of Wool	Piece	3.9	27.5
611206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
611207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.5	21.4
611299	Of Others	Piece	2.65	15.5
6113	Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906 or 5907			
611301	Of Cotton	Piece	3.3	15.2
611302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	11.4
611303	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	11.6



611304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
611305	Of Wool	Piece	3.9	19.7
611306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	15.7
611399	Of Others	Piece	2.65	11.7
6114	Other garments, knitted or crocheted			
611401	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted with tightening at the bottom			
61140101	Of Cotton	Piece	3.2	25.3
61140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
61140103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
61140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
61140105	Of Wool	Piece	3.9	27.5
61140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
61140107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.2	24.0
61140199	Of Others	Piece	2.65	20.1
611402	Women's or girls' tops/cami			
61140201	Of Cotton	Piece	3.2	25.3
61140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
61140203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
61140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
61140205	Of Wool	Piece	3.9	27.5
61140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
61140207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.2	24.0
61140299	Of Others	Piece	2.65	20.1
611403	Other jackets not covered under heading 6103 or 6104			
61140301	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
61140302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
61140303	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
61140304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
61140305	Of Wool	Piece	3.9	103.2
61140306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
61140399	Of Others	Piece	3.1	41.3
611404	Others			
61140401	Of Cotton	Piece	3.2	14.7
61140402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	11.4
61140403	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	11.6
61140404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
61140405	Of Wool	Piece	3.9	19.7
61140406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	15.7
61140407	Protective industrial wear	Piece	3.2	38.2
61140499	Of Others	Piece	2.65	11.7
6115	Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied			

	soles, knitted or crocheted			
611501	Of Cotton	Kg	3.3	60.8
611502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
611503	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
611504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
611505	Of Wool	Kg	3.9	82.6
611506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
611507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Kg	3.3	66.0
611599	Of Others	Kg	2.65	45.9
6116	Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted			
611601	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
611602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
611603	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
611604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
611605	Of Wool	Kg	3.9	82.6
611606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
611607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	2.65	6.6
611699	Of Others	Kg	2.65	45.9
6117	Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories			
611701	Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils			
61170101	Of Cotton	Piece	3.2	14.3
61170102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	11.7
61170103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	12.0
61170104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
61170105	Of Wool	Piece	3.9	17.4
61170106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	13.9
61170199	Of Others	Piece	3.1	13.6
611702	Others			
61170201	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
61170202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
61170203	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
61170204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
61170205	Of Wool	Kg	3.9	82.6
61170206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
61170299	Of Others	Kg	2.65	45.9
CHAPTER – 62				
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED				
6201	Men's or boys' overcoats, car-coats, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles other than those of heading 6203			
620101	Of Cotton	Piece	3.5	46.8

620102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
620103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
620104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
620105	Of Wool	Piece	3.9	103.2
620106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
620199	Of Others	Piece	3.1	41.3
6202	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204			
620201	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
620202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
620203	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
620204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
620205	Of Wool	Piece	3.9	103.2
620206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
620299	Of Others	Piece	3.1	41.3
6203	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)			
620301	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
62030101	Of Cotton	Piece	3.5	80.0
62030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	63.6
62030103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	64.8
62030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	145.6
62030105	Of Wool	Piece	3.9	153.7
62030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	109.4
62030199	Of Others	Piece	3.1	70.3
620302	Jackets, blazers			
62030201	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
62030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
62030203	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
62030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
62030205	Of Wool	Piece	3.9	103.2
62030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
62030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.5	49.4
62030299	Of Others	Piece	3.1	41.3
620303	Trousers, full pants			
62030301	Of Cotton	Piece	3.9	37.0
62030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.9	25.9
62030303	Of Man Made Fibres	Piece	2.9	26.6
62030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	57.2
62030305	Of Wool	Piece	3.9	50.5
62030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	40.1
62030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.9	39.0

62030399	Of Others	Piece	2.9	27.1
620304	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
62030401	Of Cotton	Piece	3.3	19.7
62030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
62030403	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	15.7
62030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
62030405	Of Wool	Piece	3.9	27.5
62030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
62030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.3	20.6
62030499	Of Others	Piece	2.65	15.5
6204	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)			
620401	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
62040101	Of Cotton	Piece	3.5	80.0
62040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	63.6
62040103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	64.8
62040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	145.6
62040105	Of Wool	Piece	3.9	153.7
62040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	109.4
62040199	Of Others	Piece	3.1	70.3
620402	Jackets, blazers			
62040201	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
62040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
62040203	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
62040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
62040205	Of Wool	Piece	3.9	103.2
62040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
62040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.5	49.4
62040299	Of Others	Piece	3.1	41.3
620403	Dresses, skirts, divided skirts, trousers, full pants			
62040301	Of Cotton	Piece	3.9	37.0
62040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.9	25.9
62040303	Of Man Made Fibres	Piece	2.9	26.6
62040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	57.2
62040305	Of Wool	Piece	3.9	50.5
62040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	40.1
62040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.9	39.0
62040399	Of Others	Piece	2.9	27.1
620404	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
62040401	Of Cotton	Piece	3.3	19.7
62040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3

62040403	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	15.7
62040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
62040405	Of Wool	Piece	3.9	27.5
62040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
62040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.3	20.6
62040499	Of Others	Piece	2.65	15.5
6205	Men's or boys' shirts			
620501	Of Cotton	Piece	3.9	33.4
620502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
620503	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
620504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
620505	Of Wool	Piece	3.9	27.5
620506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
620507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.9	29.3
620599	Of Others	Piece	2.65	20.1
6206	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses			
620601	Of Cotton	Piece	3.2	25.3
620602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
620603	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
620604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
620605	Of Wool	Piece	3.9	27.5
620606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
620607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.2	24.0
620699	Of Others	Piece	2.65	20.1
6207	Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bath-robos, dressing gowns and similar articles			
620701	Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, nightshirts and similar articles			
62070101	Of Cotton	Piece	3.9	23.1
62070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
62070103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.2
62070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	31.2
62070105	Of Wool	Piece	3.9	27.5
62070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
62070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.9	23.9
62070199	Of Others	Piece	2.65	15.5
620702	Singlets and other vests, underpants, briefs and similar articles			
62070201	Of Cotton	Piece	3.3	6.9
62070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	4.7
62070203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	4.6
62070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4

62070205	Of Wool	Piece	3.9	7.8
62070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	6.2
62070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.3	7.0
62070299	Of Others	Piece	2.65	5.3
6208	Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles			
620801	Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, negliges, nightdresses (including nightshirts) and similar articles			
62080101	Of Cotton	Piece	3.9	23.1
62080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	15.3
62080103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.2
62080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	31.2
62080105	Of Wool	Piece	3.9	27.5
62080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
62080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.9	23.9
62080199	Of Others	Piece	2.65	15.5
620802	Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties and similar articles			
62080201	Of Cotton	Piece	3.3	6.9
62080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	4.7
62080203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	4.6
62080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
62080205	Of Wool	Piece	3.9	7.8
62080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	6.2
62080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.3	7.0
62080299	Of Others	Piece	2.65	5.3
6209	Babies' garments and clothing accessories			
620901	Of Cotton	Piece	3.3	14.8
620902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	10.0
620903	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	10.8
620904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
620905	Of Wool	Piece	3.9	18.4
620906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	14.6
620907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.3	15.3
620999	Of Others	Piece	2.65	11.7
6210	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907			
621001	Of Cotton	Piece	3.2	14.7
621002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	11.4
621003	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	11.6
621004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4

621005	Of Wool	Piece	3.9	19.7
621006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	15.7
621099	Of Others	Piece	2.65	11.7
6211	Track suits, ski suits and swimwear; other garments			
621101	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, with tightening at the bottom			
62110101	Of Cotton	Piece	3.2	25.3
62110102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
62110103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
62110104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
62110105	Of Wool	Piece	3.9	27.5
62110106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
62110107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.2	24.0
62110199	Of Others	Piece	2.65	20.1
621102	Women's or girls' tops/cami			
62110201	Of Cotton	Piece	3.2	25.3
62110202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	16.7
62110203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	16.1
62110204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
62110205	Of Wool	Piece	3.9	27.5
62110206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	21.9
62110207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.2	24.0
62110299	Of Others	Piece	2.65	20.1
621103	Other jackets not covered under heading 6203 or 6204			
62110301	Of Cotton	Piece	3.5	46.8
62110302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	35.9
62110303	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	36.4
62110304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	88.4
62110305	Of Wool	Piece	3.9	103.2
62110306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	69.3
62110399	Of Others	Piece	3.1	41.3
621104	Protective industrial wear			
62110401	Protective industrial wear overall/coverall made of cotton	Piece	3.2	59.1
62110402	Other protective industrial wear made of cotton	Piece	2.65	31.7
62110403	Protective industrial wear overall/coverall made of Aramid fibre	Piece	2.65	87.6
62110404	Other protective industrial wear made of Aramid fibre	Piece	2.65	61.3
62110405	Protective industrial wear overall/coverall made of Modacrylic fibre	Piece	2.65	84.0
62110406	Other protective industrial wear made of Modacrylic fibre	Piece	2.65	56.0
62110499	Other protective industrial wear	Piece	2.65	31.7
621105	Others			
62110501	Of Cotton	Piece	3.2	14.7

62110502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.65	11.4
62110503	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	11.6
62110504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	22.4
62110505	Of Wool	Piece	3.9	19.7
62110506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	15.7
62110599	Of Others	Piece	2.65	11.7
6212	Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted			
621201	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
621202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
621203	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
621204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
621205	Of Wool	Kg	3.9	82.6
621206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
621299	Of Others	Kg	2.65	45.9
6213	Handkerchiefs			
621301	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
621302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
621303	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
621304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
621305	Of Wool	Kg	3.9	82.6
621306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
621399	Of Others	Kg	2.65	45.9
6214	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like			
621401	Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils			
62140101	Of Cotton	Piece	3.2	14.3
62140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.1	11.7
62140103	Of Man Made Fibres	Piece	3.1	12.0
62140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	3.9	41.6
62140105	Of Wool	Piece	3.9	17.4
62140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	3.1	13.9
62140199	Of Others	Piece	3.1	13.6
621402	Others			
62140201	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
62140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
62140203	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
62140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
62140205	Of Wool	Kg	3.9	82.6
62140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
62140299	Of Others	Kg	2.65	45.9
6215	Ties, bow ties and cravats			
621501	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
621502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
621503	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7



621504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
621505	Of Wool	Kg	3.9	82.6
621506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
621599	Of Others	Kg	2.65	45.9
6216	Gloves, mittens and mitts			
621601	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
621602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
621603	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
621604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
621605	Of Wool	Kg	3.9	82.6
621606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
621607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	2.65	6.6
621699	Of Others	Kg	2.65	45.9
6217	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212			
621701	Of Cotton	Kg	3.2	58.9
621702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.65	44.6
621703	Of Man Made Fibres	Kg	2.65	48.7
621704	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.9	265.2
621705	Of Wool	Kg	3.9	82.6
621706	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	3.1	65.6
621799	Of Others	Kg	2.65	45.9

**SCHEDULE-II****STATE LEVIES REBATE RATE UNDER AA-AIR COMBINATION**

Tariff Item	Description of goods under current AIR Drawback Schedule	Unit	F	
			Rebate Rate (%)	Rebate cap per unit in Rs.(₹)

**CHAPTER – 61****ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6101	Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103			
610101	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
610102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
610103	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
610104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
610105	Of Wool	Piece	1.2	44.5
610106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
610199	Of Others	Piece	1.2	22.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6102	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104			
610201	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
610202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
610203	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
610204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
610205	Of Wool	Piece	1.2	44.5
610206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
610299	Of Others	Piece	1.2	22.4
6103	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted			
610301	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
61030101	Of Cotton	Piece	1.3	41.6
61030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	35.9
61030103	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	36.6
61030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	62.7
61030105	Of Wool	Piece	1.2	66.2
61030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	61.8
61030199	Of Others	Piece	1.2	38.1
610302	Jackets, blazers			
61030201	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
61030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
61030203	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
61030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
61030205	Of Wool	Piece	1.2	44.5
61030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
61030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	25.7
61030299	Of Others	Piece	1.2	22.4
610303	Trousers, full pants			
61030301	Of Cotton	Piece	1.3	17.3
61030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	15.7
61030303	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	16.1
61030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.3	26.7
61030305	Of Wool	Piece	1.3	23.6
61030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	24.5
61030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	18.2
61030399	Of Others	Piece	1.25	16.3
610304	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
61030401	Of Cotton	Piece	1.15	9.6
61030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.15	9.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.2
61030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.15	17.2
61030405	Of Wool	Piece	1.15	11.4
61030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.15	11.4
61030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.15	10.1
61030499	Of Others	Piece	1.15	9.4
6104	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted			
610401	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
61040101	Of Cotton	Piece	1.3	41.6
61040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	35.9
61040103	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	36.6
61040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	62.7
61040105	Of Wool	Piece	1.2	66.2
61040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	61.8
61040199	Of Others	Piece	1.2	38.1
610402	Jackets, blazers			
61040201	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
61040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
61040203	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
61040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
61040205	Of Wool	Piece	1.2	44.5
61040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
61040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	25.7
61040299	Of Others	Piece	1.2	22.4
610403	Dresses, skirts, divided skirts, trousers, full pants			
61040301	Of Cotton	Piece	1.3	18.5
61040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	15.7
61040303	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	16.1
61040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.3	26.7
61040305	Of Wool	Piece	1.3	23.6
61040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	24.5
61040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	18.2
61040399	Of Others	Piece	1.25	16.3
610404	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
61040401	Of Cotton	Piece	1.15	9.6
61040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.15	9.3
61040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.2
61040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.15	17.2
61040405	Of Wool	Piece	1.15	11.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.15	11.4
61040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.15	10.1
61040499	Of Others	Piece	1.15	9.4
6105	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted			
610501	Of Cotton	Piece	1.2	13.3
610502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9
610503	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.5
610504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
610505	Of Wool	Piece	1.35	13.3
610506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
610507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	12.6
610599	Of Others	Piece	1.2	12.8
6106	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted			
610601	Of Cotton	Piece	1.3	14.4
610602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9
610603	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.5
610604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
610605	Of Wool	Piece	1.35	13.3
610606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
610607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	13.7
610699	Of Others	Piece	1.3	13.8
6107	Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted			
610701	Nightshirts, pyjamas, bath robes and dressing gowns and similar articles			
61070101	Of Cotton	Piece	1.3	10.8
61070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	10.9
61070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.6
61070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	15.1
61070105	Of Wool	Piece	1.35	13.3
61070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
61070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	10.3
61070199	Of Others	Piece	1.3	10.7
610702	Briefs, underpants and similar articles			
61070201	Of Cotton	Piece	1.15	3.4
61070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.4
61070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	3.3
61070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	10.8
61070205	Of Wool	Piece	1.35	3.8
61070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.15	3.4
61070299	Of Others	Piece	1.15	3.2
6108	Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted			
610801	Night dresses (including nightshirts), pyjamas, negligees bathrobes and dressing gowns and similar articles			
61080101	Of Cotton	Piece	1.3	10.8
61080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	10.9
61080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.6
61080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	15.1
61080105	Of Wool	Piece	1.35	13.3
61080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
61080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.3	11.1
61080199	Of Others	Piece	1.3	10.7
610802	Slips, petticoats, briefs, panties and similar articles			
61080201	Of Cotton	Piece	1.15	3.4
61080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.4
61080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	3.3
61080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	10.8
61080205	Of Wool	Piece	1.35	3.8
61080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.8
61080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.15	3.4
61080299	Of Others	Piece	1.15	3.2
6109	T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted			
610901	Of Cotton	Piece	1.15	10.2
610902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.6
610903	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	10.6
610904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
610905	Of Wool	Piece	1.35	9.6
610906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	9.6
610907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.2	10.3
610999	Of Others	Piece	1.15	7.1
6110	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats an similar articles, knitted or crocheted			
611001	Of Cotton	Piece	1.3	20.6
611002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	15.7
611003	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	16.1
611004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	24.6
611005	Of Wool	Piece	1.2	21.7
611006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	22.6
611007	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/	Piece	1.3	21.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	elastane			
611099	Of Others	Piece	1.2	15.7
6111	Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted			
611101	Of Cotton	Piece	1.2	7.5
611102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	6.6
611103	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	7.1
611104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.25	10.0
611105	Of Wool	Piece	1.25	8.2
611106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	8.2
611107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	7.8
611199	Of Others	Piece	1.2	7.4
6112	Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted			
611201	Of Cotton	Piece	1.15	9.5
611202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	10.9
611203	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.6
611204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	15.1
611205	Of Wool	Piece	1.35	13.3
611206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
611207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	10.3
611299	Of Others	Piece	1.15	9.4
6113	Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906 or 5907			
611301	Of Cotton	Piece	1.15	7.4
611302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	8.2
611303	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	8.3
611304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	10.8
611305	Of Wool	Piece	1.35	9.6
611306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	9.6
611399	Of Others	Piece	1.15	7.1
6114	Other garments, knitted or crocheted			
611401	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted with tightening at the bottom			
61140101	Of Cotton	Piece	1.3	14.4
61140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9
61140103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.5
61140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
61140105	Of Wool	Piece	1.35	13.3
61140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
61140107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	13.7
61140199	Of Others	Piece	1.3	13.8
611402	Women's or girls' tops/cami			
61140201	Of Cotton	Piece	1.15	12.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9
61140203	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.5
61140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
61140205	Of Wool	Piece	1.35	13.3
61140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
61140207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.2	12.6
61140299	Of Others	Piece	1.15	12.2
611403	Other jackets not covered under heading 6103 or 6104			
61140301	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
61140302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
61140303	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
61140304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
61140305	Of Wool	Piece	1.2	44.5
61140306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
61140399	Of Others	Piece	1.2	22.4
611404	Others			
61140401	Of Cotton	Piece	1.15	7.4
61140402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	7.6
61140403	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	7.7
61140404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.25	10.0
61140405	Of Wool	Piece	1.25	8.9
61140406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	8.9
61140407	Protective industrial wear	Piece	1.15	19.2
61140499	Of Others	Piece	1.15	7.1
6115	Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted			
611501	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
611502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.35	31.8
611503	Of Man Made Fibres	Kg	1.35	34.7
611504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.35	128.5
611505	Of Wool	Kg	1.35	40.0
611506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.35	40.0
611507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Kg	1.15	32.2
611599	Of Others	Kg	1.15	27.9
6116	Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted			
611601	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
611602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.35	31.8
611603	Of Man Made Fibres	Kg	1.35	34.7
611604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.35	128.5
611605	Of Wool	Kg	1.35	40.0
611606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.35	40.0
611607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf	Piece	1.35	4.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Gloves made of textile materials			
611699	Of Others	Kg	1.15	27.9
6117	Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories			
611701	Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils			
61170101	Of Cotton	Piece	1.15	7.2
61170102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	7.2
61170103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	7.3
61170104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.15	17.2
61170105	Of Wool	Piece	1.15	7.2
61170106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	8.4
61170199	Of Others	Piece	1.15	7.1
611702	Others			
61170201	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
61170202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.25	29.5
61170203	Of Man Made Fibres	Kg	1.25	32.1
61170204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.25	119.0
61170205	Of Wool	Kg	1.25	37.1
61170206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.25	37.1
61170299	Of Others	Kg	1.15	27.9
CHAPTER – 62 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED				
6201	Men's or boys' overcoats, car-coats, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles other than those of heading 6203			
620101	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
620102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
620103	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
620104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
620105	Of Wool	Piece	1.2	44.5
620106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
620199	Of Others	Piece	1.2	22.4
6202	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204			
620201	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
620202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
620203	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
620204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
620205	Of Wool	Piece	1.2	44.5
620206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
620299	Of Others	Piece	1.2	22.4
6203	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
620301	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
62030101	Of Cotton	Piece	1.3	41.6
62030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	35.9
62030103	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	36.6
62030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	62.7
62030105	Of Wool	Piece	1.2	66.2
62030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	61.8
62030199	Of Others	Piece	1.2	38.1
620302	Jackets, blazers			
62030201	Of Cotton	Piece	1.3	26.7
62030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
62030203	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
62030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
62030205	Of Wool	Piece	1.2	56.5
62030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	54.4
62030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	25.7
62030299	Of Others	Piece	1.2	22.4
620303	Trousers, full pants			
62030301	Of Cotton	Piece	1.3	16.8
62030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	15.7
62030303	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	17.3
62030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.3	26.7
62030305	Of Wool	Piece	1.3	39.7
62030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	33.9
62030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	18.2
62030399	Of Others	Piece	1.25	16.3
620304	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
62030401	Of Cotton	Piece	1.15	9.6
62030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.15	9.3
62030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.2
62030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.15	17.2
62030405	Of Wool	Piece	1.15	11.4
62030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.15	11.4
62030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.15	10.1
62030499	Of Others	Piece	1.15	9.4
6204	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)			
620401	Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)			
62040101	Of Cotton	Piece	1.3	41.6
62040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	35.9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62040103	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	36.6
62040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	62.7
62040105	Of Wool	Piece	1.2	66.2
62040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	61.8
62040199	Of Others	Piece	1.2	38.1
620402	Jackets, blazers			
62040201	Of Cotton	Piece	1.3	33.1
62040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
62040203	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
62040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
62040205	Of Wool	Piece	1.2	44.5
62040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
62040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	25.7
62040299	Of Others	Piece	1.2	22.4
620403	Dresses, skirts, divided skirts, trousers, full pants			
62040301	Of Cotton	Piece	1.3	17.3
62040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	15.7
62040303	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	15.6
62040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.3	26.7
62040305	Of Wool	Piece	1.3	23.6
62040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	24.5
62040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	18.2
62040399	Of Others	Piece	1.25	16.3
620404	Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)			
62040401	Of Cotton	Piece	1.15	14.0
62040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.15	9.3
62040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.0
62040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.15	17.2
62040405	Of Wool	Piece	1.15	11.4
62040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.15	11.4
62040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.15	10.1
62040499	Of Others	Piece	1.15	9.4
6205	Men's or boys' shirts			
620501	Of Cotton	Piece	1.2	14.5
620502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9
620503	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.5
620504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
620505	Of Wool	Piece	1.35	13.3
620506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
620507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	12.6
620599	Of Others	Piece	1.2	12.8
6206	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
620601	Of Cotton	Piece	1.3	14.0
620602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9
620603	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	12.6
620604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
620605	Of Wool	Piece	1.35	13.3
620606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
620607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	13.7
620699	Of Others	Piece	1.3	13.8
6207	Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bath-robos, dressing gowns and similar articles			
620701	Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, nightshirts and similar articles			
62070101	Of Cotton	Piece	1.3	10.8
62070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	10.9
62070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.6
62070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	15.1
62070105	Of Wool	Piece	1.35	13.3
62070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
62070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	10.3
62070199	Of Others	Piece	1.3	10.7
620702	Singlets and other vests, underpants, briefs and similar articles			
62070201	Of Cotton	Piece	1.15	3.4
62070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.4
62070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	3.3
62070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	10.8
62070205	Of Wool	Piece	1.35	3.8
62070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.8
62070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.15	3.4
62070299	Of Others	Piece	1.15	3.2
6208	Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles			
620801	Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, negliges, nightdresses (including nightshirts) and similar articles			
62080101	Of Cotton	Piece	1.3	10.8
62080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	10.9
62080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.6
62080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	15.1
62080105	Of Wool	Piece	1.35	13.3
62080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
62080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	11.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62080199	Of Others	Piece	1.3	10.7
620802	Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties and similar articles			
62080201	Of Cotton	Piece	1.15	3.4
62080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.4
62080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	3.3
62080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	10.8
62080205	Of Wool	Piece	1.35	3.8
62080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	3.8
62080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.15	3.4
62080299	Of Others	Piece	1.15	3.2
6209	Babies' garments and clothing accessories			
620901	Of Cotton	Piece	1.2	7.5
620902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	6.6
620903	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	7.1
620904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.25	10.0
620905	Of Wool	Piece	1.25	8.2
620906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	8.2
620907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	7.8
620999	Of Others	Piece	1.2	7.4
6210	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907			
621001	Of Cotton	Piece	1.15	7.4
621002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	8.2
621003	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	8.3
621004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	10.8
621005	Of Wool	Piece	1.35	9.6
621006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	9.6
621099	Of Others	Piece	1.15	7.1
6211	Track suits, ski suits and swimwear; other garments			
621101	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, with tightening at the bottom			
62110101	Of Cotton	Piece	1.3	14.4
62110102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9
62110103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.5
62110104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
62110105	Of Wool	Piece	1.35	13.3
62110106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
62110107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.3	13.7
62110199	Of Others	Piece	1.3	13.8
621102	Women's or girls' tops/cami			
62110201	Of Cotton	Piece	1.15	12.7
62110202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	11.9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62110203	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	11.5
62110204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.35	20.2
62110205	Of Wool	Piece	1.35	13.3
62110206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	13.3
62110207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.2	12.6
62110299	Of Others	Piece	1.15	12.2
621103	Other jackets not covered under heading 6203 or 6204			
62110301	Of Cotton	Piece	1.3	24.3
62110302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	20.3
62110303	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	20.5
62110304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.2	38.1
62110305	Of Wool	Piece	1.2	44.5
62110306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	39.1
62110399	Of Others	Piece	1.2	22.4
621104	Protective industrial wear			
62110401	Protective industrial wear overall/coverall made of cotton	Piece	1.25	32.3
62110402	Other protective industrial wear made of cotton	Piece	1.35	22.6
62110403	Protective industrial wear overall/coverall made of Aramid fibre	Piece	1.35	62.5
62110404	Other protective industrial wear made of Aramid fibre	Piece	1.35	43.7
62110405	Protective industrial wear overall/coverall made of Modacrylic fibre	Piece	1.35	59.9
62110406	Other protective industrial wear made of Modacrylic fibre	Piece	1.35	40.0
62110499	Other protective industrial wear	Piece	1.25	20.9
621105	Others			
62110501	Of Cotton	Piece	1.15	7.4
62110502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.25	7.6
62110503	Of Man Made Fibres	Piece	1.25	7.7
62110504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.25	10.0
62110505	Of Wool	Piece	1.25	8.9
62110506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.25	8.9
62110599	Of Others	Piece	1.15	7.1
6212	Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted			
621201	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
621202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.35	31.8
621203	Of Man Made Fibres	Kg	1.35	34.7
621204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.35	128.5
621205	Of Wool	Kg	1.35	40.0
621206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.35	40.0
621299	Of Others	Kg	1.15	27.9
6213	Handkerchiefs			
621301	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
621302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.35	31.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
621303	Of Man Made Fibres	Kg	1.35	34.7
621304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.35	128.5
621305	Of Wool	Kg	1.35	40.0
621306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.35	40.0
621399	Of Others	Kg	1.15	27.9
6214	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like			
621401	Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils			
62140101	Of Cotton	Piece	1.15	7.2
62140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.35	7.2
62140103	Of Man Made Fibres	Piece	1.35	7.3
62140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.15	17.2
62140105	Of Wool	Piece	1.15	7.2
62140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.35	8.4
62140199	Of Others	Piece	1.15	7.1
621402	Others			
62140201	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
62140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.25	29.5
62140203	Of Man Made Fibres	Kg	1.25	32.1
62140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.25	119.0
62140205	Of Wool	Kg	1.25	37.1
62140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.25	37.1
62140299	Of Others	Kg	1.15	27.9
6215	Ties, bow ties and cravats			
621501	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
621502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.25	29.5
621503	Of Man Made Fibres	Kg	1.25	32.1
621504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.25	119.0
621505	Of Wool	Kg	1.25	37.1
621506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.25	37.1
621599	Of Others	Kg	1.15	27.9
6216	Gloves, mittens and mitts			
621601	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
621602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.35	31.8
621603	Of Man Made Fibres	Kg	1.35	34.7
621604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.35	128.5
621605	Of Wool	Kg	1.35	40.0
621606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.35	40.0
621607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	1.35	4.7
621699	Of Others	Kg	1.15	27.9
6217	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212			
621701	Of Cotton	Kg	1.15	29.7
621702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.25	29.5
621703	Of Man Made Fibres	Kg	1.25	32.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
621704	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.25	119.0
621705	Of Wool	Kg	1.25	37.1
621706	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.25	37.1
621799	Of Others	Kg	1.15	27.9